



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13 1977/वैशाख 23, 1899

No. 197]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 1977/VAISAKHA 23, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATIONS

*New Delhi, the 12th May 1977*

**S.O. 328(E).**—Whereas the Election Commission by its notification No 464/77, dated 25 February, 1977, changed the date of poll in 1-Kinnaur (ST), 54-Bharmour (ST) and 55-Lahaul and Spiti (ST) Assembly Constituencies comprised within 2-Mandi Parliamentary Constituency from 16 March, 1977, as appointed by the Commission by its notification No 464/77, dated 10 February, 1977 to 24 May, 1977,

And whereas it has now been decided to take poll in the above mentioned three Assembly Constituencies comprised within 2-Mandi Parliamentary Constituency alongwith the General Election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly from these assembly constituencies, to be held in pursuance of the Governor's notification dated 11 May, 1977

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 30 and 153 of the Representation of the People Act, 1951, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and in Partial modification of its notification No 464/77, dated 25 February, 1977, the Election Commission hereby makes the following amendments to its Notification No 464/77, dated 10 February, 1977, as amended subsequently, namely —

- (i) In clause d(ii) relating to completion of election in 2-Mandi Parliamentary Constituency, for the figures and words '15 June, 1977 (Wednesday)', the figures and words '24 June, 1977 (Friday)' shall be substituted

- (ii) In the Schedule to the notification, under item 6 HIMACHAL PRADESH, against the entries "1-Kinnaur (ST)", "54-Bharmour (ST)" and "55-Lahaul and Spiti (ST)" in column (3), for the existing entries in column (2), the entry "10 June, 1977 (Friday)" shall be substituted

[No. 464/HP/77]

## भारत निर्वाचन आयोग

### अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 12 मई, 1977

का० आ० 328(अ).—निर्वाचन आयोग ने 2-मंड़ी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट 1-किन्नोर (अ० ज० जा०) 54-भरमौर (अ० ज० जा०) और 55-लाहौल स्पीति (अ० ज० जा०) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अपनी अधिसूचना सं० 464/77, तारीख 10 फरवरी, 1977 द्वारा यथानियत की गई मतदान की तारीख 16 मार्च, 1977 को अपनी अधिसूचना सं० 464/77, तारीख 25 फरवरी, 1977 द्वारा बदल कर 24 मई, 1977 कर दिया।

और, अथ, 2-मंड़ी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट उपर्युक्त तीन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदान, इन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए राज्यपाल की तारीख, 11 मई, 1977 की अधिसूचना के अनुसरण में होने वाले साधारण निर्वाचन के साथ कराने का विनिश्चय किया गया है।

अतः, अथ, निर्वाचन आयोग साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 और धारा 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अपनी अधिसूचना सं० 464/77, तारीख 25 फरवरी, 1977 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, तत्पश्चात् यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 464/77, तारीख 10 फरवरी, 1977 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्—

- (i) 2-मंड़ी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन पूरा कर लेने से सम्बन्धित खण्ड घ(ii) में, "15 जून, 1977 (बुधवार)" अंकों और शब्दों के स्थान पर "24 जून, 1977 (शुक्रवार)" अंक और शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद 6. हिमाचल प्रदेश के नीचे स्तम्भ 3 में "1 किन्नोर (अ० ज० जा०)", "54-भरमौर (अ० ज० जा०)" और "55-लाहौल और स्पीति (अ० ज० जा०) प्रविष्टियों के सामने, स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "10 जून, 1977 (शुक्रवार)" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[स० 464/हि० प्र०/77]

S.O 329(E).—In modification of its Notification No 464/77(1) dated 10 February, 1977, issued under section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission fixes the hours from 7 30 A.M. to 4 30 P.M. as the hours during which poll shall be taken in 1-Kinnaur (ST), 54-Bharmour (ST) and 55-Lahaul and

Spiti (ST) assembly constituencies comprised within 2-Mandi Parliamentary Constituency of Himachal Pradesh.

[No. 464/HP/77(1)]

By order,

V NAGASUBRAMANIAN, Secy.

का० आ० 329.(अ).—निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अधीन जारी की गई तारीख 10 फरवरी, 1977 की अपनी अधिसूचना स० 464 77(1) में संशोधन करते हुए, 7.30 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान, हिमाचल प्रदेश के 2-मंडी मसदीय निर्वाचनक्षेत्रों में समाविष्ट 1-किन्नोर (अ० ज० जा०), 54-भरमौर (अ० ज० जा०) और 55-लाहौल और स्पीति (अ० ज० जा०) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदान होगा।

[स० 464, हि० प्र०/77(1)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यम, सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

